

[Este mensaje está en español a continuación.](#)

[Sob lus rov hais hauv qab no vog Hmong.](#)

[Ce message est répété ci-dessous en français.](#)

[यो सन्देश तल नेपालीमा दोहोरिएको छ।](#)

[សារលំអិតនេះតាមរើនីងវិញជាភាសាខ្មែរ។](#)

## Family Update 03/29/21

Happy Spring Break!

Our family update has been postponed this week to allow West staff to relax and re-energize. We'll return next Monday, April 5th.

We are excited that 66% of West students have elected to return to classes in-person in mid-April. For students who are coming back to school in person, we enjoyed the attendance of ~200 families at the event this past Tuesday to discuss what to expect. [Here are the slides](#) from the presentation, to provide you with information if you were not able to attend.

We hope that you and your family have a happy and healthy break.

We hope you relax, refresh and renew for the mad dash to the end of the year.

Karen

---

## Actualización para las Familias, 29 de marzo 2021

¡Felices Vacaciones de Primavera!

Nuestras actualizaciones para las familias se han pospuesto esta semana para permitir al personal de West un tiempo de relajación y reenergizarse. Regresaremos el próximo lunes 5 de abril.

Estamos emocionados de que el 66% de los estudiantes de West hayan elegido regresar a clases en persona a mediados de abril. Para los estudiantes que regresan a la escuela en persona, disfrutamos de la asistencia de ~ 200 familias en el evento del martes pasado para discutir qué esperar. [Aquí están las diapositivas](#) de la presentación, para brindarle información si no pudo asistir.

Esperamos que usted y su familia tengan un feliz y saludable descanso.

Esperamos que se relaje, refresque y renueve para la carrera loca hasta el final del año.

Karen

---

## Family Update 03/29/21

Nyob zoo rau lub caij los so ntawm lub sij hawm Nplooj Ntoos Hlav no!

Hnub no yuav tsis muaj lus tshaj tawm rau peb cov yim neeg lawm vim peb yuav los so. Peb yuav rov tuaj kawm ntawv dua rau hnub Monday, Plaubhlis 5 th tom ntej no.

Peb zoo siab hais tias 66% ntawm cov me nyuam kawm ntawv ntawm West yuav rov tuaj kawm ntawv tim ntsej thiab tim muag rau lub Plaubhlis nrab tom ntej no. Cov me nyuam yuav rov tuaj kawm ntawv tim ntsej thiab tim muag ntawd, peb zoo siab hais tias -200 yim neeg tuaj koom txheej nyob rau hnub Tuesday tas los, tham txog seb qhov yuav npaj li cas rau li cas. Nov yog, [Here are the slides](#) cov ntsiab lus rau koj yog koj ho muaj dab tsis thiab ho tuaj koom tsis tau.

Peb vam thiab cia siab tias koj thiab koj tsev neeg yuav muaj kev zoo siab thiab nyob nyab xeeb rau lub sij hawm los so no.

Peb kuj vam thiab cia siab tias koj yuav tsis ua dab tsi, xav qhov yuav rov pib txhua yam tshiab thiab zoo vam meej mus rau ntawm lub xyoo kawg no xwb.

Karen

---

## Mise à jour aux familles du 3/29/21

Joyeux Congé de printemps!

Nous avons reporté notre mise à jour aux familles de cette semaine pour permettre au personnel de West de se détendre et de se ressourcer. Nous reviendrons lundi prochain, 5 avril.

Nous sommes ravis que 66% des élèves de West aient choisi de reprendre les cours en personne à la mi-avril. Pour les élèves qui reviennent à l'école en personne, nous avons apprécié la présence d'environ 200 familles à l'événement mardi dernier pour discuter de ce à quoi s'attendre. [Voici les diapositives](#) de la présentation, pour vous fournir des informations si vous n'avez pas pu y assister.

Nous espérons que vous et votre famille avez un congé heureux et sain.

Nous espérons que vous vous détendrez et vous renouvez pour la course folle de la fin de l'année.

Karen

---

## पारिवारिक अपडेट ३/२६/२१

शुभ होस् स्प्रिंग ब्रेक!

हाम्रो पारिवारिक अपडेट अरको एक हप्ताको लागि सथगित गरिएको छ जसले गर्दा हाम्रो वेषटका कर्मचारीहरूको लागि एक हप्ता आराम सँग छुट्टी लिनै मौका हुन्छ। हामी सोमबार, अप्रिल ५ मा फर्किनै छौं ।

६६ % विद्यार्थीहरूले, यो अप्रिल महिनाको बिच देखि, सकुलको बिल्डिङमा आएर (इन परसन) पढाई गर्नै छुने कोमा हामी उत्साहित छौं । २०० परिवारहरूले असती मंगलवार हाम्रो "सकुल खोलदा के आशा गर्ने"

भनन् कार्यक्रममा भाग लिनु भएकोमा हामी खुशी छौं। यो कार्यक्रममा भाग लिन नपाएकोहरूका लागि यहाँ सलाइड हेरेर [Here are the slides](#) जानकारी लिनुहोला ।

हामी तपाईं र तपाईंको परिवारको आनन्दमय र स्वस्थ बर्षको कामना गरदछौं ।

हामी आशा गर्दछौं कि तपाईं आराम गर्नुहोस् र यो वर्ष सकुल सकाउनको लागि ताजा भएर फर्किनुहोस् ।

करेन

Family Update 03/26/21

## បច្ចុប្បន្នភាពគ្រួសារ ០៣/២៦/២១

Happy Spring Break!

### រីករាយនិទាយរដូវស្កាក

Our family update has been postponed this week to allow West staff to relax and reenergize. We'll return next Monday, April 5th.

ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពគ្រួសាររបស់យើងត្រូវបាននាំឱ្យធាតុលក់  
និងសប្តាហ៍ធនុះធធើម្បីអនុញ្ញា  
រឱ្យប្រគល់កំណែខាងលិចគ្រួសារនិងផ្ទាល់មាមូល  
ធឿងវិញ។ យើងនីត្រឡប់ម្តីវិញនៅថ្ងៃច័ន្ទឆ្នាំគ្រាយថ្ងៃទី៥  
ខែធម្មា។

We are excited that 66% of West students have elected to return to classes in-person in mid April. For students who are coming back to school in person, we enjoyed the attendance of ~200 families at the event this past Tuesday to discuss what to expect. [Here are the slides](#) from the presentation, to provide you with information if you were not able to attend.

### ធើយ៉ាវនាំធើ បខដល ៦៦

ការរយ្យិសសិរនៅបសថិម្បធឿសបានបារេធននរោយវិល  
ត្រឡប់នៅធឿន្ទោយផ្ទៃលីនៅពាក់កណ្តាលខែធម្ម សា។  
សុំរាប់និសសិរខដលត្រឡប់ម្តីសារវិញដោយផ្ទៃលីធើយ៉ាវរីក